

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014—पौष 20, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2014 (पौष 20, 1935)

क्र. 662-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की जाती है :—

अधिसूचना

‘श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा दिनांक 10 जनवरी, 2014 को पूर्वाह्न में मध्यप्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा उक्त दिनांक को उक्त पद का कार्यभार संभाल लिया है.’

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.